



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 आश्विन 1936 (श0)
(सं0 पटना 799) पटना, मंगलवार, 30 सितम्बर 2014

कृषि विभाग

अधिसूचना
26 सितम्बर 2014

सं0 6/स्था० नियु0नियमा0-10/13-1080/कृ०—भारत-संविधान के अनुच्छेद-309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि-3 (रसायन) में भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।—**
 - (i) यह नियमावली 'बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि-3 (रसायन) नियमावली 2014' कही जा सकेगी।
 - (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
 - (iii) यह इस नियमावली में तुरंत प्रवृत्त होगी।
2. **परिभाषा — इस नियमावली में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो।—**
 - (i) विभाग से अभिप्रेत है बिहार सरकार का कृषि विभाग
 - (ii) 'संवर्ग' से अभिप्रेत है बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि-3 (रसायन) का संवर्ग,
 - (iii) 'आयोग' से अभिप्रेत है 'बिहार कर्मचारी चयन आयोग',
 - (iv) 'वर्ष' से अभिप्रेत है 'वित्तीय वर्ष अर्थात् 1 अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च तक' की अवधि,
 - (v) 'सदस्य' से अभिप्रेत है बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा (रसायन) में नियुक्त व्यक्ति,
 - (vi) 'नियुक्ति' प्राधिकार से अभिप्रेत है कृषि निदेशक, कृषि विभाग।
3. **संवर्ग का गठन एवं पद सोपान।—** यह सेवा राज्य सेवा होगी तथा कृषि विभाग इस सेवा का प्रशासी विभाग होगा।
 - (1) संवर्ग का मूल पद सहायक अनुसंधान पदाधिकारी का होगा।
 - (2) संवर्ग की संरचना एवं आकार की समीक्षा विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार की जा सकेगी।
4. **मूल कोटि में नियुक्ति एवं प्रोन्नति।—**
 - (1) मूल कोटि के पद सीधी नियुक्ति से भरे जायेंगे।

- (2) प्रति वर्ष 1 ली अप्रैल के आधार पर संवर्ग में स्वीकृत पदों के विरुद्ध सीधी नियुक्ति के लिए रिक्त पदों की गणना की जायेगी और 30 अप्रैल तक आरक्षण कोटिवार अध्याचना नियुक्ति प्राधिकार द्वारा आयोग को भेजी जायेगी।
- (3) **शैक्षणिक योग्यता**।— किसी मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय या संस्थान/ केन्द्रीय विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातक अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र में स्नातक।
- (4) **सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति**।—
- (क) सीधी नियुक्ति आयोग द्वारा संचालित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अनुशंसित अभ्यर्थियों के बीच से की जायेगी।
- (ख) **उम्र सीमा**।— आवेदन आमंत्रित करने वाले वर्ष के पहली अगस्त को न्यूनतम आयु 21 (इक्कीस) वर्ष होगी और अधिकतम उम्र सीमा वही होगी जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य सरकार की सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए समय-समय पर अवधारित की जाय, परन्तु विशेष परिस्थिति में उसका कारण अभिलिखित करते हुए विभाग इसे बढ़ा सकेगा।
- (ग) **आरक्षण**।— सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य सरकार की सेवाओं में सीधी नियुक्ति के लिए समय-समय पर अवधारित आरक्षण प्रावधान लागू होंगे।
- (घ) सीधी नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की संख्या के साथ अध्याचना प्रत्येक वर्ष आयोग को भेजी जायेगी।
- (ङ) **प्रतियोगिता परीक्षा के विषय तथा पाठ्यक्रम**।— प्रतियोगिता परीक्षा में निम्नलिखित पत्र होंगे :—
- (i) सामान्य हिन्दी — 100 अंक
- (ii) सामान्य ज्ञान — 100 अंक
- (iii) कृषि विज्ञान/रसायन शास्त्र — 200-200 अंकों का दो पत्र कुल 400 अंक। (कृषि विज्ञान एवं रसायन शास्त्र से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए अलग-अलग स्नातक स्तर के 200-200 अंक के दो प्रश्न पत्र होंगे)।
- हिन्दी में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, परन्तु, इस पत्र में प्राप्तांक की गणना मेधा सूची के प्रयोजनार्थ नहीं की जाएगी। मेधा सूची कृषि विज्ञान/रसायन शास्त्र के 400 अंकों में तथा सामान्य ज्ञान के 100 अंकों में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर तैयार की जाएगी। हिन्दी एवं सामान्य ज्ञान का पाठ्यक्रम वही होगा जो बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा उसके द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अवधारित की जाय। कृषि विज्ञान/रसायन शास्त्र का पाठ्यक्रम विभाग द्वारा आयोग के परामर्श से अवधारित किया जाएगा।
- (च) **आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की अनुशंसा**।— आयोग, परीक्षा में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर आरक्षण कोटिवार मेधा सूची तैयार करेगा और प्रतिवेदित रिक्तियों के अनुसार अनुशंसा विभाग को भेजेगा।
5. **परिवीक्षा**।—
- (i) सेवा में सीधी भर्ती से नियुक्त प्रत्येक सदस्य पदग्रहण की तिथि से दो वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन होगा किन्तु, विशेष परिस्थितियों में कारण अभिलिखित करते हुए, यह अवधि विभाग के द्वारा एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी। यदि बढ़ाई गयी अवधि में भी उसका कार्य संतोषप्रद नहीं हो तो उसकी सेवा सरकार द्वारा बिना कारण पृच्छा के समाप्त की जा सकेगी, परन्तु इसकी लिखित सूचना कारण सहित उसे दी जाएगी।
- (ii) परिवीक्षाधीन अवधि की गणना नियमित सेवा में की जायेगी।
6. **प्रशिक्षण**।— बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा (रसायन) में नियुक्त सदस्यों के लिए प्रोन्नति हेतु विभाग द्वारा अवधारित संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण संस्थानों का चयन समय-समय पर विभाग द्वारा किया जायेगा।
- कृषि विभाग द्वारा सेवाकालीन/प्रशिक्षण का आयोजन किया जायेगा, जिसमें अधिकारी को भाग लेना होगा। उक्त आधार पर प्रोन्नति का लाभ अनुमान्य होगा। परन्तु, विभाग द्वारा ससमय प्रशिक्षण का आयोजन नहीं किये जाने की स्थिति में प्रोन्नति बाधित नहीं होगी।
7. **विभागीय परीक्षा**।— (1) कर्मियों को राजभाषा विभाग, बिहार द्वारा आयोजित हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा विभाग द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
- (2) मूल कोटि के वेतनमान में द्वितीय वेतनवृद्धि विभागीय परीक्षा उत्तीर्णता एवं सेवा संपुष्टि के बाद ही देय होगी।
- (3) कर्मियों को वेतन वृद्धि में यह रूकावट असंचयात्मक होगी और परीक्षा में उत्तीर्णता के उपरान्त रोकी गयी वेतन वृद्धियाँ दे दी जाएगी।
- (4) कर्मियों के 50 (पचास) वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात कर्मचारियों को विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता की अनिवार्यता से विमुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, समय-समय पर निर्गत परिपत्रों/अनुदेशों के अधीन दी जा सकेगी।

8. **सेवा सम्पुष्टि।**— परिवीक्षा की समाप्ति, विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता तथा अवधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने पर तथा सेवा स्वच्छ पाये जाने पर सीधी नियुक्ति के सदस्यों की सेवा स्थायी संवर्गीय पदों के विरुद्ध मूल कोटि में सम्पुष्टि की जाएगी।
09. **वरीयता का अवधारण।**— वरीयता का अवधारण सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर अवधारित नीति के आलोक में किया जाएगा।
10. **प्रकीर्ण – कठिनाई का निराकरण।**—
- (1) इस नियमावली के नियमों का निर्वचन सामान्य प्रशासन विभाग/विधि विभाग/वित्त विभाग के परामर्श से करने में सक्षम होगा।
 - (2) विभाग इस नियमावली के किसी नियम को लागू करने में आने वाली कठिनाई का निराकरण राजपत्र में समुचित आदेश, जो इस नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हो, द्वारा कर सकेगा।
 - (3) जिन विषयों या बिन्दुओं का प्रावधान इस नियमावली में नहीं है, उनके सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा तत्समय प्रवृत्त संहिता/नियमावली/संकल्प/अनुदेश में किये गये प्रावधान इस सेवा के संदर्भ में भी लागू होंगे।
11. **निरसन एवं व्यावृत्ति।**— (1) इस संवर्ग के कर्मियों की नियुक्ति/सेवा शर्त संबंधी पूर्व में निर्गत सभी परिपत्र/अनुदेश/संकल्प एतद द्वारा निरसित किए जाते हैं।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, पूर्व निर्गत परिपत्र/अनुदेश/संकल्प के अधीन किया गया कुछ भी या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया या की गयी समझी जायगी मानों यह नियमावली उसदिन प्रवृत्त थी जब वैसा कुछ किया या वैसी कार्रवाई की गयी थी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
सरकार के प्रधान सचिव।

The 26th September 2014

No. 6/Est. App. R-10/13-1080 /Ag.—In exercise of power conferred under proviso of schedule -309 of the constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following rules to regulate the appointment, promotion and service Conditions of Bihar Agriculture Subordinate, Service category - 3 (Chemistry).

1. Short title, name, extent and commencement:-

- (i) These rules shall be called Bihar Agriculture subordinate service category-3 (Chemistry) Rules 2014.
- (ii) It shall extend to the whole of state of Bihar.
- (iii) It shall come into force at once .

2. Definition:- In these Rules, unless other wise requires in the context.

- (i) “Department” means Agriculture Department of the Government of Bihar
- (ii) “Cadre” means cadre of Bihar Agriculture Subordinate Service category-3 (Chemistry)
- (iii) “ Commission” means Bihar Staff Selection Commission.
- (iv) “Year” means “ financial year” i.e. from 1st April to 31st March of next year .
- (v) “Member” means person appointed under Bihar Agriculture Subordinate Service, category-3 (Chemistry).
- (vi) “Appointing Authority” means Agriculture Director, Agriculture Department.

3. Constitution of cadre and hierarchy

This shall be a state Service and Agriculture department shall be its administrative department.

- (1) Assistant Research officer shall be the basic grade post of this cadre.

- (2) The department may review the structure and strength of cadre as per need.

4. Appointment in basic category -

- (1) Post of basic category shall be filled up by direct appointment.
- (2) The calculation of vacant posts for direct appointment against the sanctioned posts of cadre, shall be made on the basis of on 1st April every year and by 30th April the appointing authority shall send requisition reservation category wise to the Commission.
- (3) Academic Qualification- Graduation in Agriculture Science from recognized Agriculture University or institution/ Central University or Graduation in chemistry from a recognized University .
- (4) **Direct Appointment.**
- (a) Direct appointment shall be made from amongst the candidates recommended on the basis of Competitive Examination conducted by the Commission.
- (b) Age limit – minimum age shall be 21 (twenty one) years on 1st April of the year inviting the application and maximum age limit shall be the same as may be determined from time to time, by the Department of General Administration for direct appointment in the services of the state but in special circumstances, the department may increase it recording reasons for the same.
- (c) Reservation- The provisions for reservation determined by the Department of General Administration, from time to time for direct appointment in the services of state, shall apply .
- (d) For direct appointment, requisition along with number of general and category wise vacancies shall be sent to the commission every year by the Department.
- (e) Subjects any syllabus of Competitive Examination There shall be following Papers in the Competitive Examination .
- (i) General Hindi – 100 Marks
- (ii) General Knowledge – 100 Marks
- (iii) Agriculture Science / Chemistry-

Two papers carrying 200 marks each
total 400 marks .

(There shall be two papers of graduation level. Carrying 200 marks each, separately for the candidates of Agriculture Science and chemistry).

It shall be compulsory to obtain 30 percent marks in Hindi but the marks obtained in this paper shall not be calculated for the purpose of preparation of merit list. The merit list shall be prepared on the basis of total marks obtained out of 400 marks in Agriculture Science / Chemistry and 100 marks of General Knowledge. The Syllabus for Hindi and General Knowledge shall be the same as may be determined by the Bihar Staff Selection Commission for the Joint Competitive Examination conducted by it. The syllabus for Agriculture science / Chemistry, shall be prepared by the department in consultation with commission.

- (f) Recommendation of candidates by the Commission – The Commission shall prepare merit list reserved category wise on the basis of marks obtained in the

examination conducted by the Commission and shall send recommendation to the department according to the reported vacancies.

5. Probation –

- (1) Every member appointed by direct recruitment in the service, shall be on probation for the period of 2 years from the date of his Joining but in special circumstances, this period may be extended up-to one year recording the reasons. If in the said extended period also his performance is not satisfactory, he may be terminated from his services, by the Government, without asking any show cause, but he shall be given its written notice with reasons.
- (2) The probation period shall be calculated for the purpose of regular service.

6. Training :- For promotion, it shall be compulsory for the members appointed in the Bihar Agriculture Subordinate Service category -3 (Chemistry) to obtain training from the institute determined by the department. Training Institute will be selected by the Department from time to time.

Training during service period will be held by the Agriculture Department in which the officers shall have to participate. The benefit of promotion shall be admissible on the basis of it, but in case, if not holding training in time by the department, their promotion shall not be obstructed.

7. Departmental Examination :

- (1) It shall be compulsory for the employees to pass in Hindi noting and drafting examination conducted by Rajbhasha department, Bihar, as well as in the departmental examination conducted by the department.
- (2) Second increment in the pay scale of basic category shall be admissible only after passing in the examination and after confirmation of service.
- (3) Held-up increments of the employee shall be non – cumulative and shall be payable after passing in the examination.
- (4) Exemption from essentiality of passing the said departmental examination may be given to the employees after completing 50 (fifty) years of age, under the circulars / instructions issued by the department of General Administration from time to time.

8. Confirmation of Service

- (i) The services of the members of direct appointment, shall be confirmed against permanent posts in the basic category, only after completing probation period, passing in the Departmental Examination, completing the determined training programme successfully and on finding spotless service.

9. Determination of Seniority.

The seniority of a member shall be determined in the light of policy determined by the Department of General Administration, from time to time.

10. Miscellaneous - Removal of difficulties

- (1) The department shall be competent to interpret any rule of these rules in consultation with the Department of General Administration/ Law Department/ Finance Department.

- (2) The department may remove the difficulty, if any in implementation of any rule of these rules, by publication of appropriate order in the official Gazette which is not inconsistent with these Rules.
- (3) In respect of such subjects or points for which the provisions are not made in these rules, the provisions laid down in Code/ Rules / resolutions/ instruction, into force for the time being by the State Government shall apply to this context of this service also.

11. Repeals and Savings

- (1) All circulars / instructions / resolutions in respect of the appointment / service conditions of the employees of this cadre, are hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal, any thing done or any the action taken under any circular / instruction/ resolution, issued earlier shall be deemed to be done or taken under these Rules as if these Rules were in force when such thing was done or such action was taken.

By order of the Governor of Bihar,

Sd./Illegible,

Principal Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 799-571+100-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>